

प्रेस कांफ्रेंस/सराहनीय कार्य दिनांक-14-09-2022

सर्विलांस सेल/एस0ओ0जी0 व थाना त्रिलोकपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा त्रिलोकपुर व डुमरियागंज क्षेत्रान्तर्गत मोबाइल लूट की घटना का सफल अनावरण, 01 नफर शातिर लुटेरा गिरफ्तार, लूट का 02 अदद मोबाइल फोन, चोरी की 01 अदद अपाचे मोटरसाइकिल तथा घटना में प्रयुक्त होंडा साइन मोटरसाइकिल बरामद ।

निरुपम यादव पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम रजवापुर थाना त्रिलोकपुर सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 03-09-2022 को थाना त्रिलोकपुर पर सूचना दी गयी कि वह शौच कर वापस घर की तरफ आ रहा था कि अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसका विवो का मोबाइल छीनकर भाग गये । जिसके सम्बन्ध में थाना त्रिलोकपुर पर मु0अ0सं0 142/2022 धारा 392 भादवि0 व थाना डुमरियागंज में मोबाइल लूट के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 208/2022 धारा 392/504 भादवि0 पंजीकृत किया गया था । अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्वक्षण व राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 14-09-2022 को विद्याधर कुशवाहाप्रभारी निरीक्षक थाना , त्रिलोकपुर व सर्विलांस सेल/एस0ओ0जी0 की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित लूट की घटना कारित करने वाले 01 नफर अभियुक्त को थानाक्षेत्र त्रिलोकपुर के चिताही से मन्नीजोत मार्ग से सुबह 03:15 बजे गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूट के 02 अदद मोबाइल फोन व घटना कारित किये जाने में प्रयुक्त 01 अदद होंडा साइन मोटरसाइकिल बरामद किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर 01 अदद चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गयी । प्रकाश में आये शेष दों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

01- प्रफुल सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह साकिन लल्लू खरहीबारी थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा (उम्र करीब 22 वर्ष) ।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय- थानाक्षेत्र त्रिलोकपुर के चिताही से मन्नीजोत मार्ग से सुबह 03:15 बजे ।

पूछताछ का विवरण -गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बताया गया कि “मैं तथा मेरे दो साथी 01-विमल पाठक पुत्र विजय पाठक साकिन मोकलपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा 02- सरोज पाठक उर्फ काजू पुत्र विश्वनाथ पाठक साकिन मोकलपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा दिनांक 02-09-2022 को डुमरियागंज क्षेत्र में भरवटिया मुस्तहकम गांव के पास 01 मोबाइल छीनकर वहां से चिताही व सोनहा होते हुये ग्राम रजवापुर में रास्ते में छीनकर नेपाल चले गये थे” तथा अपाचे बाइक के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताये कि “हम लोगों द्वारा 10-15 दिन पहले हरैया जनपद बस्ती से चुराया गया था जिसको कल शाम को हम लोग बेचने के लिये लाये, कोई खरीददार नही आया तो कुड़वा बिस्कोहर में छिपा रखे थे”।

वांछित अभियुक्तगण का विवरण-

01- विमल पाठक पुत्र विजय पाठक साकिन मोकलपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा ।

02- सरोज पाठक उर्फ काजू पुत्र विश्वनाथ पाठक साकिन मोकलपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा ।

अभियुक्त प्रफुल सिंह का आपराधिक इतिहास-

01- मु0अ0सं0 142/2022 धारा 392/411 भा.द.वि. थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।

02- मु0अ0सं0 208/2022 धारा 392/504 भादवि थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

03- मु0अ0सं0 316/2022 धारा 379 भा.द.वि. थाना हरैया जनपद बस्ती ।

अभियुक्त विमल कुमार पाठक का आपराधिक इतिहास-

- 01- मु0अ0सं0 0193/2020 धारा 392/411/457 भा.द.वि. थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर
- 02- मु0अ0सं0 0085/2020 धारा 380/411/457 भा.द.वि. थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
- 03- मु0अ0सं0 0147/2020 धारा 380/411/419/420/457/467/468/471 भादवि थाना भवानीगंज सि0नगर
- 04- मु0अ0सं0 0149/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भा.द.वि. थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर
- 05- मु0अ0सं0 0168/2020 धारा 3(1)गैंगेस्टर एक्ट थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर
- 06- मु0अ0सं0 0243/2022 धारा 380/411/457 भा.द.वि. थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा
- 07- मु0अ0सं0 316/2022 धारा 379 भा.द.वि. थाना हरैया जनपद बस्ती ।
- 08- मु0अ0सं0 142/2022 धारा 392/411 भा.द.वि. थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 09- मु0अ0सं0 208/2022 धारा 392/504 भादवि थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

अभियुक्त सरोज पाठक उर्फ काजू का आपराधिक इतिहास-

- 01- मु0अ0सं0 0193/2020 धारा 392/411/457 भा.द.वि. थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर
- 02- मु0अ0सं0 0085/2020 धारा 380/411/457 भा.द.वि. थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
- 03- मु0अ0सं0 0147/2020 धारा 380/411/419/420/457/467/468/471 भादवि थाना भवानीगंज सि0नगर
- 04- मु0अ0सं0 0149/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भा.द.वि. थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर
- 05- मु0अ0सं0 0168/2020 धारा 3(1)गैंगेस्टर एक्ट थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 06- मु0अ0सं0 0243/2022 धारा 380/411/457 भा.द.वि. थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा ।
- 07- मु0अ0सं0 142/2022 धारा 392/411 भा.द.वि. थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 08- मु0अ0सं0 316/2022 धारा 379 भा.द.वि. थाना हरैया जनपद बस्ती ।
- 09- मु0अ0सं0 208/2022 धारा 392/504 भादवि थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

बरामदगी का विवरण-

- 01- 01 अदद विवो मोबाइल फोन (सम्बन्धित मु0अ0सं0 142/2022 धारा 392 भादवि0 थाना त्रिलोकपुर)
- 02- 02 अदद विवो मोबाइल फोन (सम्बन्धित मु0अ0सं0 208/2022 धारा 392 भादवि0 थाना डुमरियागंज)
- 03- 01 अदद होंडा शाइन मोटरसाइकिल (रजि0सं0 DL12SP0881) घटना में प्रयुक्त ।
- 04- 01 अदद चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल (सम्बन्धित मु0अ0सं0 316/2022 धारा 379 भादवि0 थाना हरैया जनपद बस्ती) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 01- प्रभारी निरीक्षक विद्याधर कुशवाहा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थ नगर ।
- 02- उ0नि0 शेषनाथ यादव प्रभारी सर्विलांस सेल सिद्धार्थनगर ।
- 03- उ0नि0 अजय सिंह थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थ नगर ।
- 04- का0 विरेन्द्र तिवारी, का0 पवन तिवारी एस0ओ0जी0 टीम ।
- 05- का0 विवेक कुमार मिश्र, का0 अभिनन्दन सिंह सर्विलांस सेल सिद्धार्थनगर ।
- 06- का0 अजय कुमार सिंह यादव, का0 बालेश्वर निषाद, का0 अरविन्द कुमार, का0 सुनील कुमार थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थ नगर ।

प्रेस नोट दिनांक-14-09-2022

अन्तर्जनपदीय बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिता वर्ष-2022 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा किया गया सम्मानित ।

दिनांक 08-09-2022 से दिनांक 10-09-2022 तक रिजर्व पुलिस लाइन जनपद बहराइच में आयोजित बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिता वर्ष-2022 में सिद्धार्थनगर पुलिस पुरुष वर्ग की टीम ने बैडमिंटन प्रतियोगिता गोरखपुर जोन में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए जनपद सिद्धार्थनगर का मान बढ़ा कर “चल वैजन्ती” पुरस्कार प्राप्त किया तथा टेबल टेनिस पुरुष वर्ग सिंगल्स में मु0 आरक्षी विजयकान्त यादव द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया । आज दिनांक 14-09-2022 को अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा टीम प्रभारी उमाशंकर यादव से प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर उनसे प्रतियोगिता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी । जिसके पश्चात महोदय द्वारा विजेता टीम को सम्मानित किया गया । इसके अतिरिक्त 70वीं इन्टर जोनल हाकी प्रतियोगिता वर्ष 2022 आयोजित जनपद बरेली में गोरखपुर जोन की टीम उपविजेता रही जिसमें जनपद सिद्धार्थनगर के 07 खिलाड़ियों ने भी प्रतिभाग किया ।

बैडमिंटन पुरुष वर्ग टीम सिद्धार्थनगर-

- 01- उ0नि0 उमाशंकर यादव (टीम प्रभारी)
- 02- आरक्षी जनार्दन चौहान
- 03- आरक्षी इन्द्रेश कुमार
- 04- आरक्षी हरिवंश
- 05- आरक्षी चन्द्रिका श्रीवास्तव

टेबल टेनिस सिंगल्स- मु0 आरक्षी विजयकान्त यादव (प्रथम स्थान)

इन्टर जोनल हाकी प्रतियोगिता वर्ष 2022 जनपद बरेली में प्रतिभागी टीम-

- 01- मु0आरक्षी महेन्द्र शर्मा
- 02- मु0आरक्षी अमरेन्द्र विश्वकर्मा
- 03- मु0आरक्षी सत्येन्द्र कुमार गौड़
- 04- आरक्षी जयकिशन
- 05- आरक्षी हरिवंश
- 06- आरक्षी वरुण चौहान
- 07- आरक्षी पवन कुमार

प्रेस नोट दिनांक 14.09.2022 थाना कपिलवस्तु

थाना कपिलवस्तु पुलिस तथा एस0एस0बी0 टीम द्वारा तस्करी कर ले जा रहे खाद व वाहन को किया गया बरामद

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “अपराध एवं अपराधियों रोकथाम व तस्करी हेतु चलाये जा रहे अभियान” के क्रम में सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर कुशल पर्यवेक्षण व अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन तथा सूर्यप्रकाश सिंह, थानाध्यक्ष कपिलवस्तु के नेतृत्व आज दिनांक 14.09.2022 को एस0एस0बी0 व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मदतिया सलारगढ तिराहे से चार पहिया वाहन

मार्शल मैक्स रजि0नं0 UP55T1000 मय 10 बोरी यूरिया खाद को धारा 11 कस्टम अधिनियम में बरामद कर आवश्यक कार्यवाही हुए कस्टम कार्यालय ककरहवा रवाना किया गया। मौके से तस्कर फरार होने में सफल रहा।

बरामदगी का विवरण

01. 10 बोरी यूरिया खाद

02. 01 अदद मार्शल मैक्स नम्बर UP 55T1000

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. सूर्यप्रकाश सिंह थानाध्यक्ष कपिलवस्तु, उ0नि0 अशोक कुमार, हे0का0 सरोज कुमार यादव, का0 संदीप कुमार यादव, का0 सोनदेव थाना कपिलवस्तु जनपद सि0नगर

सशस्त्र सीमा बल का विवरण-

01. निरीक्षक सम्पत सिंह ,उ0नि0 माधव गुप्ता, हे0का0 राममिलन यादव, का0 तिलकराम, का0 राममिलन यादव, का0 भावीतोष सिंह 43 बटालियन एस0एस0बी0 अलीगढ़वा।

प्रेस नोट आपरेशन शिकंजा दिनांक 14-09-2022

ऑपरेशन शिकंजा के तहत थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से शरीर सम्बन्धी अपराध के आरोपीगण आकाश व जगमता को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास तथा अभियुक्तगण को रुपये 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

शासन के निर्देशानुसार चलाये जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के अन्तर्गत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 14-09-2022 को जनपद सिद्धार्थनगर वाद सं. 59/2018 मु.अ.सं. 52/2018 धारा 498A,304B भादवि व 3/4 डी.पी.एक्ट में पंजीकृत थाना खेसरहा से सम्बन्धित आरोपित 02 अभियुक्तगण को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया। उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण आकाश पुत्र स्व. महावीर उर्फ भोला व अभियुक्ता जगमता पत्नी स्व. महावीर उर्फ भोला निवासीगण ग्राम बरनवार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थनगर द्वारा उक्त दोनो अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास तथा प्रत्येक अभियुक्त को रुपये 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिसमें सरकार की तरफ पैरवी राजेश त्रिपाठी, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, न्यायालय पैरोकार राजेश्वर चन्द्र, का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 14.09.2022

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर नव युवकों, महिलाओं और लड़कियों को महिला सुरक्षा व मिशन शक्ति के संबंध में जानकारी दी गई तथा मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही हेतु चेकिंग की गयी।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 14.09.2022 को शक्ति मोबाइल/प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 पूनम मौर्या द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के

अन्तर्गत थाना सिद्धार्थ नगर, उसका बाजार थानाक्षेत्र में स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की गयी।

एण्टी रोमियों टीम का विवरण-

- 01-महिला उ0नि0 पूनम मौर्या प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02-आरक्षी राकेश यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03-महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट - दिनांक 14.09.2022 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 14.09.2022 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनन्द के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चन्द्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात देवी गुलाम के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय यातायात पुलिस टीम द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय बस्ती परिक्षेत्र बस्ती के आदेशानुसार हूटर, प्रेसर हॉर्न एवं वाहनों पर अवैध रूप से लगाए गए नेम प्लेट आदि के विरुद्ध अभियान चलाया गया तथा वाहन चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 36 वाहनों से 35500/-रु0 शमन शुल्क तथा जनपदीय पुलिस द्वारा 42 वाहनों से 42500/रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी लायी जा सके ।

प्रेस नोट दिनांक 14-09-2022 थाना शिवनगर डिडई

थाना शिवनगर डिडई पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी को किया गया गिरफ्तार

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में एवं सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, व देवी गुलाम क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल पर्यवेक्षण ज्ञानेन्द्र कुमार राय प्रभारी निरीक्षक शिवनगर डिडई के कुशल नेतृत्व में डिडई पुलिस द्वारा आज दिनांक 14/09/2022 को थाना स्थानीय से 01 नफर वारंटी दिवाकर पुत्र राजेश ग्राम साड़ी खुर्द को संबंधित में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. दिवाकर पुत्र राजेश ग्राम साड़ी खुर्द थाना शिव नगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम विवरण*-

- 01-उ0नि0 राकेश त्रिपाठी थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02.का0 गोरख कुमार थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर ।